

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 33/2017- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 1281(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government on the recommendations of the Council hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 704(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification,-

(i) in the Table, after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

“10	Supply of services by the members of Overseeing Committee to Reserve Bank of India	Members of Overseeing Committee constituted by the Reserve Bank of India	Reserve Bank of India.”.
-----	--	--	--------------------------

[F. No. 354/173/2017- TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 13/2017 – Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 704 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 22/2017 - Union Territory Tax (Rate) dated the 22nd August, 2017 vide number G.S.R. 1055 (E), dated the 22nd August, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सं. 6/2017- प्रतिकर उपकर (दर)

सा.का.नि. 1282(अ).—माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017(2017 का 15) की धारा 8 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केंद्र सरकार, जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 2/2017-प्रतिपूर्ति उप-कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 709(अ), दिनांक, 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :—

(क) क्रम सं. 2 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जायेगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“2क	1 जुलाई 2017 के पहले खरीदे और पट्टे पर दिए गए वाहनों को पट्टे पर देना	अध्याय 99	उप-कर की दर का 65% जो कि जो कि इसी प्रकार के माल कि आपूर्ति पर लागू होती है, जिसमें माल में हक का अंतरण भी शामिल है। नोट : इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात 1 जुलाई 2020 को या उसके बाद लागू नहीं होगी ”।

[फा. सं. 354/173/2017-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं० 2/2017- प्रतिपूर्ति उप-कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, सा०का०नि० 709 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 6/2017- Compensation Cess (Rate)

G.S.R. 1282(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 8 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017-Compensation Cess (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 709 (E), dated the 28th June, 2017, namely:—

- (a) after serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“2A	Leasing of motor vehicles purchased and leased prior to 1 st July 2017	Chapter 99	65 per cent. of the rate of cess as applicable on supply of similar goods involving transfer of title in goods. Note : Nothing contained in this entry shall apply on or after 1 st day of July, 2020”.

[F. No. 354/173/2017- TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 2/2017 - Compensation Cess (Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 709 (E), dated the 28th June, 2017.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.10.14 10:31:01 +05'30'